

SKPM/SEC.DEPT/2025-26
AUGUST 14, 2025

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Deptt.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code: 500388

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation 2015

Subject: **Newspaper Advertisement of Financial Results under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed below, the newspaper clippings of Un-audited Financial Results for the quarter ending June 30th, 2025, published in:

1. Business Standard- English language national daily newspaper.
2. Business Standard - Hindi Edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

RITIKA
PRIYAM

Digitally signed
by RITIKA PRIYAM
Date: 2025.08.14
14:17:32 +05'30'

**Ritika Priyam
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No: A53502**

Encl: As above

Op Sindoor, Swadeshi likely to be focus of PM’s I-Day speech

ARCHIS MOHAN
New Delhi, 13 August-

India’s success against Pakistan in Operation Sindoor, the government’s resolve to protect interests of farmers amid US tariff threat, a renewed push towards Atmanirbhar Bharat and Swadeshi are set to feature prominently during Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speech from the ramparts of the Red Fort on Friday.

On Wednesday, chief ministers of Bharatiya Janata Party (BJP)-ruled states and Union ministers participated in ‘Tiranga Yatras’ across the country.

Home Minister Amit Shah hoisted the National Flag at his residence in New Delhi as part of the ‘Har Ghar Tiranga’ campaign. He said the initiative has become a people’s movement that strengthens the spirit of patriotism.

Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan organised a ‘Tiranga Yatra and ‘Swadeshi March’ in his parliamentary constituency Vidisha–Raisen in Madhya Pradesh.

He appealed to the people to hoist the National Flag at their homes on Independence Day and took a pledge with them to adopt ‘swadeshi’ ‘made in India’ products.

Chouhan said three million women in the country are set to become Lakhpati Didis (earning ₹100,000 annually).

“I pledge to buy only products that are made in India for my daily use, and I will urge everyone in my family, neighbour-



The PM’s speech may highlight the government’s resolve to protect the interests of farmers in the face of pressure from the US for market access

hood, and village to do the same,” he added.

Chouhan said the Indus Waters Treaty is no longer the issue. “The issue is Pakistan-occupied Kashmir. It is ours, and it will remain ours,” he said. At a meeting that Chouhan attended on Tuesday in New Delhi, farmers welcomed the PM’s decision to resist “foreign pressure in trade negotiations,” according to an official press statement.

Under the overarching objective of the government’s vision of Viksit Bharat by 2047, the theme of the 79th Independence Day is to celebrate the “continuing rise of a prosperous, secure and bold Naya Bharat.”

After the PM hoists the National Flag,

two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals, with one trooping the National Flag and the other a flag depicting ‘Operation Sindoor’.

The invitation cards for the 79th Independence Day celebration also carry the Operation Sindoor logo, and the water mark of Chenab bridge to exemplify the rise of ‘Naya Bharat’. Floral decorations at the venue will also be based on ‘Operation Sindoor’.

Apart from personnel of the three defence services, 2,500 boy and girl cadets (Army, Navy and Air Force) and ‘My Bharat’ volunteers will participate in the celebrations.

Nearly 5,000 special guests have been invited to witness the celebrations at Red Fort this year, including Indian contingent of Special Olympics 2025, winners of international sports events, farmers trained under National Beekeeping and Honey Mission, farmers engaged in sustainable management of medicinal plants, and sarpanches of open defecation free plus villages as well as interns enrolled under the PM Internship Scheme, among others.

Other guests include sanitation workers, beneficiaries of the Lakhpati Didi scheme, Aanganwadi workers, rehabilitated bonded labourers and guests from ‘vibrant villages’ in border areas.

The guest list represents the government’s commitment to the welfare of the poor, farmers, women and youth, and also the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs).

Multiple documents norm for SIR shows it is voter-friendly: SC

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 13 August

The Supreme Court on Wednesday observed that the option of 11 documents in Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar to prove citizenship is “voter-friendly rather than restrictive”.

Justice Joymalya Bagchi made this observation while addressing senior advocate AM Singhvi, who is appearing for one of the petitioners challenging Election Commission’s (EC’s) SIR of Bihar’s electoral rolls.

A bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi is hearing a clutch of petitions challenging the EC’s June 24 directive, ordering SIR of Bihar electoral roll. The directive requires voters not listed in the 2003 electoral roll to submit documents proving their citizenship. Those born after December 2004 must also furnish the citizenship documents of both parents, with additional requirements if a parent is a foreign national.

The court said that the ongoing SIR exercise in Bihar permits the use of any of 11 documents to establish citizenship, whereas the earlier summary revision of electoral rolls in Jharkhand allowed only seven documents as proof of identity.

The court noted that while the exclusionary argument from Aadhaar is understood, the availability of multiple



Earlier summary revision of electoral rolls in Jharkhand allowed only seven documents as proof of identity, the Supreme Court said

documents to prove citizenship is seen as “voter-friendly rather than restrictive”.

Singhvi questioned the “compelling need” to conduct the SIR within such a short time, pointing out that it will lead to the exclusion of a large number of voters. He argued that most women in Bihar do not have a matriculation or educational certificates issued by recognised boards or universities, which is one of the 11 documents.

During the hearing, Justice Bagchi noted that there is some “elbow room” given to the ECI in Section 21(3) of the Representation of the People(RP) Act.

SC orders SIT probe into Noida land compensation payout irregularities

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 13 August

The Supreme Court on Wednesday ordered an SIT probe into alleged irregularities in payment of compensation to land owners by Noida Authority, which in several cases was “exorbitant” highlighting the nexus between senior officials and land owners.

A bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi ordered a new special investigation team (SIT) of three Indian Police Service officers, replacing the earlier SIT, which highlighted the irregularities in the land acquisition compensation payouts.

The apex court directed that there will be no project development in Noida without prior Environmental Impact Assessment and approval by the court’s green bench, which hears environmental cases.

In January this year, the court had constituted an SIT of three senior IPS officers from the UP cadre to investigate the “overall functioning” of Noida Authority. The SIT report found that in at least 20 cases, land compensation paid to certain beneficiaries exceeded legal entitlements. It also named errant Noida Authority officials and raised concerns about potential collusion, centralised power, and a lack of transparency in the administrative operations of the authority.

The new SIT is directed to register preliminary enquiries and, if they find credible evidence of wrongdoing, escalate to FIRs. The court said that this process must be overseen by a police officer of at least Commissioner rank, who will also file periodic status reports to the court.

ALL IN A DAY

Indian consulate slams temple defacement in US

The signboard of a Hindu temple was defaced in the US city of Indiana, an incident described by the Indian consulate as “reprehensible”.

The “hateful act” took place at the BAPS Swaminarayan Temple in Greenwood city, the temple’s official public affairs account said in an X post on Tuesday. This was the fourth time in less than a year that a BAPS temple has been targeted, it said. The Indian Consulate in Chicago called the act “reprehensible”.

CTS to shift to steady clearing in two phases

Reserve Bank of India on Wednesday said the Cheque Truncation System (CTS) will move to continuous clearing and settlement on realisation regime in two phases. The first phase of transition will be implemented on October 4, 2025 and phase two on January 3, 2026. At present, CTS works under batch processing. Under the new system, cheques will be scanned, presented, and passed in a few hours and on a continuous basis during business hours.

BS REPORTER

Sonia was a voter before getting citizenship: BJP

The BJP alleged on Wednesday that former Congress president Sonia Gandhi was registered as a voter before she became an Indian citizen, as the ruling party stepped up its counter-offensive amid the Opposition’s charge of “vote-chori” against the government and the Election Commission.

“Sonia Gandhi’s tryst with India’s voters’ list is riddled with glaring violations of electoral law. This perhaps explains Rahul Gandhi’s fondness for regularising ineligible and illegal voters, and his opposition to the Special Intensive Revision,” BJP’s IT department head Amit Malviya said on X.

Ex-CEC Rajiv Kumar hasn’t left India: Sources

Former chief election commissioner Rajiv Kumar is in India and has not left the country, people close to him said on Wednesday, amid speculation on social media that he has settled in a foreign country.

The 2024 Lok Sabha polls were held under his supervision. He demitted office in February. People close to him said he is very much in India and has not settled in Malta.

Kumar has been in the limelight after Congress leader Rahul Gandhi alleged “vote theft” in Karnataka, Maharashtra and Haryana during polls, which took place when the former headed the poll panel.

ED questions Suresh Raina in betting app case

Former Indian cricketer Suresh Raina was on Wednesday questioned by the Enforcement Directorate (ED) in an alleged illegal online betting app-linked money laundering case, official sources said.

Raina (38) was seen interacting with CISF personnel and ED staff outside the ED’s office in central Delhi before he marked his attendance at around 11 am.

The The federal probe agency recorded his statement under the PMLA as part of the probe linked to a sports betting app, 1xBet, the sources said. Raina is understood to have been linked to the app through certain endorsements.


The ED wants to understand his links with this app, any endorsement fee earned and the mode of communication between the two parties, according to the sources.

EC ‘colluding’ with BJP to ‘steal’ votes in Bihar: RJD’s Tejashwi

RJD leader Tejashwi Yadav on Wednesday accused the Election Commission of “colluding” with the BJP to “steal” votes in Bihar, where assembly polls are due later this year.

He alleged that the poll panel was “helping BJP leaders secure two voter cards each”, and reiterated that the RJD could boycott the Bihar polls if alleged irregularities on the electoral rolls are not rectified.

The BJP termed these allegations as “false and misleading”.

| Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002 | | | | |
| CIN: L21012DL1972PLC279773 | | | | |
| Website: www.skpmil.com E-mail: info@skpmil.com Tel: 91-11-46263200 | | | | |
| Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025 | | | | |
| (₹ in Lakhs) | | | | |
| Sl. No. | Particulars | Quarter ended 30.06.2025 (Un-audited) | Year ended 31.03.2025 (Audited) | Quarter ended 30.06.2024 (Un-audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 5,560.51 | 16,995.64 | 3,624.80 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 124.98 | 194.84 | (19.79) |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 124.98 | 194.84 | (19.79) |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 88.46 | 112.74 | (23.02) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 90.93 | 174.68 | (15.38) |
| 6 | Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each) | 1,352.17 | 1,352.17 | 1,352.17 |
| 7 | Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | - | 2092.30 (As at 31.03.2025) | - |
| 8 | Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised) | | | |
| | (a) Basic (in ₹) | 0.65 | 0.83 | (0.17) |
| | (b) Diluted (in ₹) | 0.65 | 0.83 | (0.17) |
| Notes : | | | | |
| 1 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (as amended). | | | | |
| 2 The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Un-audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company’s website www.skpmil.com | | | | |
|  | | | | |
| For and on behalf of the Board of Directors of Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. | | | | |
| Sd/- | | | | |
| Narendra Kumar Pasari | | | | |
| Managing Director | | | | |
| DIN - 00101426 | | | | |
| Place : New Delhi | | | | |
| Date : August 13, 2025 | | | | |

| TARC LIMITED | |  |
|--|--|---|
| Registered Office: 2 nd Floor, C-3, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi (India)-110016 | | |
| Tel.: 011-41244300; E-mail: tarc@tarc.in | | |
| Website: www.tarc.in ; CIN: L70100DL2016PLC390526 | | |
| UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 | | |
| <p>The Board of Directors of TARC Limited at its meeting held on August 12, 2025 approved the un-audited Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025 and the said financial results along with limited review reports are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company website at https://www.tarc.in/financial-information.php and can also be accessed by scanning the Quick Response Code published herewith.</p> <p>For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and are available at their abovementioned websites and Company website.</p> | | |
|  | | <p>For TARC Limited Sd/- Amar Sarin Managing Director & CEO DIN: 00015937</p> |
| Date : August 12, 2025 Place: New Delhi | | |

| nuvama | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | | | | |
| Corporate Identity Number: U67120MH1994PLC286057 | | | | |
| Registered Office: 801- 804, Wing A, Building No. 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051 | | | | |
| • Tel No: +91 22 6620 3030 • Website: nuvamafinance.com | | | | |
| Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 | | | | |
| (₹ in million, except per share data) | | | | |
| Particulars | June 30, 2025 (Unaudited) | Quarter ended March 31, 2025 (Audited) | June 30, 2024 (Unaudited) | Year ended March 31, 2025 (Audited) |
| 1 Total income from operations | 1,621.47 | 1,427.35 | 1,462.97 | 6,326.75 |
| 2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 333.13 | 126.30 | 275.64 | 1,238.22 |
| 3 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 333.13 | 126.30 | 275.64 | 1,238.22 |
| 4 Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 247.84 | 93.35 | 205.10 | 922.99 |
| 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 245.41 | 91.92 | 202.77 | 919.40 |
| 6 Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share) | 114.59 | 114.59 | 114.59 | 114.59 |
| 7 Reserves (excluding Revaluation Reserves) | 9,138.36 | 8,892.45 | 8,645.64 | 8,892.45 |
| 8 Securities premium account | 5,086.37 | 5,086.37 | 5,086.37 | 5,086.37 |
| 9 Net worth ¹ | 9,252.95 | 9,007.04 | 8,760.23 | 9,007.04 |
| 10 Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt | 37,987.66 | 37,279.43 | 33,418.86 | 37,279.43 |
| 11 Outstanding Redeemable Preference Share Capital | - | - | - | - |
| 12 Debt Equity Ratio ² | 4.11 | 4.14 | 3.81 | 4.14 |
| 13 Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each) | | | | |
| - Basic (Refer note 3) | 21.63 | 8.15 | 17.90 | 80.55 |
| - Diluted (Refer note 3) | 21.63 | 8.15 | 17.90 | 80.55 |
| 14 Capital Redemption Reserve | 323.51 | 323.51 | 323.51 | 323.51 |
| 15 Debenture Redemption Reserve | NA | NA | NA | NA |
| 16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | NA | NA | NA | NA |
| 17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) | NA | NA | NA | NA |
| ¹ Net worth = Equity share capital + Other Equity | | | | |
| ² Debt-equity Ratio = Total debt (Debt securities + Borrowings other than debt securities) / Net worth | | | | |
| Notes: | | | | |
| 1. The above is an extract of the detailed format of quarter ended June 30, 2025 financial results filed with the Stock Exchange in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (the ‘Listing Regulations, 2015’) and the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable and the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (“RBI”) from time to time. The full format of the financial results are available on the website of the Stock exchange (www.bseindia.com) and the Company’s website (https://nuvamafinance.com). | | | | |
| 2. For the other line items referred in regulation 52 (4), regulation 52 (7) and regulation 54 of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE) and on the Company’s Website and can be accessed on the URL (https://nuvamafinance.com). | | | | |
| 3. Earnings per share for the quarters are not annualised. | | | | |
| 4. The above financial results of the Company have been reviewed and recommended by the audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on August 12, 2025. The Statutory Auditors of the Company have conducted limited review of the above financial results and have issued an unmodified review report. | | | | |
| 5. Previous periods/ year figures have been regrouped/ re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter ended June 30, 2025. The impact, if any, are not material to the financial results. | | | | |
| For and on behalf of the Board of Directors | | | | |
| sd/- | | | | |
| Tushar Agrawal | | | | |
| Executive Director & Chief Executive Officer | | | | |
| DIN: 08285408 | | | | |
| Mumbai, August 12, 2025 | | | | |

नोएडा भूमि मुआवजा मामला

जावश्यक था। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने असहमति जताई और कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन उनका कवरेज कम है।

मतदाताओं के पास पासपोर्ट की उपलब्धता का उदाहरण देते हुए, सिंघवी ने कहा कि बिहार में पासपोर्ट थारकों की संख्या एक से दो प्रतिशत है और राज्य में स्थानीय निवासि प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर हम बिहार की आबादी के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें, तो पाता चलता है कि कवरेज बहुत कम है।' पीठ ने कहा कि राज्य में 36 लाख पासपोर्ट थारकों की संख्या अच्छी प्रतीत होती है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है।' भाषा



श्री कृष्ण पेपर मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालय: 4830/24, प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002

CIN : L21012DL1972PLC279773

वेबसाइट: www.skpmil.com ई-मेल: info@skpmil.com दूरभाष: 91-11-46263200

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 30.06.2025 को समाप्त तिमाही (अलेखा-परीक्षित) | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित) | 30.06.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखा-परीक्षित) |
|----------|--|--|---|--|
| 1 | परिचालनों से आय कुल आय | 5,560.51 | 16,995.54 | 3,624.80 |
| 2 | अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले) | 124.98 | 194.84 | (19.79) |
| 3 | कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) | 124.98 | 194.84 | (19.79) |
| 4 | करोपरान्त अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) | 88.46 | 112.74 | (23.02) |
| 5 | अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (करोपरान्त) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (करोपरान्त) सम्मिलित) | 90.93 | 174.68 | (15.38) |
| 6 | इविटेरी शेयर मुंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10/-) | 1,352.17 | 1,352.17 | 1,352.17 |
| 7 | अन्य इविटेरी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर आरक्षित निधि) जैसा कि विगत वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है | - | 2092.30 (31.03.2025 को) | - |
| 8 | प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10/-) वार्षिक आधार पर नहीं : (क) बेसिक (₹ में) (ख) डाइल्यूटेड (₹ में) | 0.65 0.65 | 0.83 0.83 | (0.17) (0.17) |

टिप्पणी:

- उक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित कंपनी (भारती लेखा मानक) नियम, 2015 (आईएनडी एस) (यथा संशोधित) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्याताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33, यथा संशोधित, के अधीन स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।



निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

श्री कृष्ण पेपर मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता/-

नरेंद्र कुमार पसारी

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00101426

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 13 अगस्त, 2025

Business Standard

Insight Out

बिज़नेस स्टैंडर्ड

शक्ति और प्राधिकरण के प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई गई। एफआईटी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बड़े फैसले जनता की निगरानी या जनता को जानकारी दिए बिना लिए जा रहे थे।

अदालत फिलहाल नौएडों के एक कानून अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन पर कुछ भू-स्वामियों को 'भारी मात्रा में मुआवजा देने' का आरोप है जबकि कथित तौर पर वे

से 'शीघ्र आत शीघ्र' स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अनुमति वाली पीठ द्वारा मई 2024 में पारित उस आदेश का बुधवार को हवाला दिया, जिसमें आवाज कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद प्रथम न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।

'कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)' की याचिका में कहा गया है कि उस पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का पालन नहीं किया जा रहा जिसमें आवाज कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियमित बुधवारकरण और टीकाकरण कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है।

भाषा

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण), विनियम, २०११ के अनुसार :-

- कंपनी की प्रतिभूतियाँ सूचीकृत होना बंद हो जाती हैं और इसलिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।
- इन असूचीकृत कंपनी के प्रमोटरों के लिए एक्सचेंज द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयर खरीदना आवश्यक होगा।
- इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, २०११ के विनियम ३४(१) के अनुसार, असूचीकृत कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानून के अनुपादन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उनके प्रमोटर और उनसे से किसी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों अनिवार्य असूचीकरण की तिथि से १० वर्ष की अवधि तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगी या किसी भी इक्विटी शेयर के लिए सूचीकरण का प्रयास नहीं कर पाएंगी।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण), विनियम, २०११ के विनियम ३४(२) के प्रावधानों के अनुसार, जिन कंपनियों का उचित मूल्य सकारात्मक है, उनके मामले में -

(अ) ऐसी किसी कंपनी और लिपोजिटरी द्वारा प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए किन्हीं इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण बिक्री, बंधक आदि के माध्यम से निष्पादित नहीं किया जाएगा और लाभार्थ, राशद्वय, बोनस शेयर, स्लिट जैसे कोईएर लाभों को प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक फ्रीज कर दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा विनियम ३३ के उप-विनियम (४) का संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यथा प्रमाणित अनुपालन करने हुए सार्वजनिक शेयरधारकों को निकासी की विलक्य प्रदान नहीं किया जाता है।

(ब) अनिवार्य रूप से असूचीकृत कंपनी के प्रमोटर और पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानून के अनुपादन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी सूचीकृत कंपनी का निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि ऊपर खंड (ए) में वर्णनानुसार निकासी विलक्य प्रदान नहीं किया जाता है।

२) इस कंपनी को एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

३) इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि सार्वजनिक शेयरधारकों को निकासी और उचित मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी और उचित मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी के प्रमोटरों पर है, यदि प्रमोटरों द्वारा निकासी नहीं प्रदान की जाती है, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

बीएसई लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
१४ अगस्त, २०२५